
	केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)	
सत्यमेव जयते	O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX, केंद्रीय उत्पाद शुल्क भवन, सातवीं मंजिल, पॉलिटेक्निक के पास, आम्बावाडी, अहमदाबाद-380015	7 th Floor, Central Excise Building, Near Polytechnic, Ambavadi, Ahmedabad-380015
☎ 079-26305065		☎ 079-26305136

रजिस्टर डाक ए.डी.द्वारा

क फाइल संख्या (File No.): V2(39)54 /North/Appeals/ 2017-18
 ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.): AHM-EXCUS-002-APP-397-17-18
 दिनांक (Date): 22-Mar-2018 जारी करने की तारीख (Date of issue): 16/4/2018
 श्री उमा शंकर, आयुक्त (अपील) द्वारा पारित
 Passed by **Shri Uma Shanker**, Commissioner (Appeals)

ग _____ आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, (मंडल-III), अहमदाबाद उत्तर, आयुक्तालय द्वारा जारी
 मूल आदेश सं _____ दिनांक _____ से सृजित
 Arising out of Order-In-Original No 22/REF/2017-18 Dated: 25/09/2017
 issued by: Assistant Commissioner Central Excise (Div-III), Ahmedabad North

घ अपीलकर्ता/प्रतिवादी का नाम एवम पता (Name & Address of the Appellant/Respondent)

M/s IMBB

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person an aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way:

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:


(1) (क) (i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की धरा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परंतुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को की जानी चाहिए।

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid:

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब हानि कारखाने से किसी भंडारगार या अन्य कारखाने में या किसी भंडारगार से दूसरे भंडारगार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भंडारगार या भंडार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भंडारगार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामले में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है



- (c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

- (d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

- (2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

- (क) वर्गीकरण मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठिका वेस्ट ब्लॉक नं. 3. आर. के. पुरम, नई दिल्ली को एवं

- (a) the special bench of Custom, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No.2, R.K. Puram, New Delhi-1 in all matters relating to classification valuation and.

- (ख) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैटल हॉस्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016.

- (b) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

- (2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणों की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से

रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो जहाँ उक्त न्यायाधिकरण की पीठ स्थित है।

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

- (3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

- (4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूचि-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

- (5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- (6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपील के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस सन्दर्भ में इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो मांग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."

:: ORDER-IN- APPEAL ::

M/s. IMBB, 185/186, Chinubhai Tower, Ashram Road, Ahmedabad 380009, is registered with the Service Tax Department having Registration No. AAFFI2770JSD001 (*hereinafter referred to as the 'appellants'*) have filed the present appeal against the Order-in-Original number 22/REF/II/2017-18 dated 25.09.2017 (*hereinafter referred to as 'impugned order'*) passed by the Assistant Commissioner, Service Tax, Division-III, Ahmedabad North (*hereinafter referred to as 'adjudicating authority'*).

2. The facts of the case, in brief, are that the appellants had filed refund claim amounting to ₹12082/- on 27.06.2017 under Notification number 41/2012-ST dated 29.06.2012 in respect of Service Tax paid on services used for export of goods.

3. During scrutiny of the claim, the adjudicating authority had found that the appellant had not produced the invoices for which Service Tax refund is claimed in original. Also there should be a document which evidences the payment of the Service Tax. In this case the appellant has been requested to provide original copy of invoices and bank statement through the query memo dated 08.09.2017. However, the same were not produced by the appellant. Therefore, the adjudicating authority uphold the amount of Rs.9168/- and reject the amount of Rs. 2914/- as per Notification number 41/2012-ST dated 29.06.2012 .

4. Being aggrieved with the impugned order the appellants have preferred the present appeal and filed the appeal to this office on 22.11.2017. The appellants have submitted that they deny the allegations and contentions specified in the impugned orders. The appellant sated that the impugned order has been passed by the adjudicating authority in utter violation to the principles of natural justice, as he has not considered the submissions made by the appellant. The impugned order having been passed in violation of principles of natural justice is liable to be quashed and set aside.

5. Personal hearing in the matter was granted on 23.02.2018. Shri N.K. Tiwari, Consultant, appeared before me and reiterated the grounds of appeal. He pointed out that the adjudicating authority has rejected the claim of refund of Rs. 9168/- which was eligible as per Notification number 41/2012-ST dated 29.06.2012 .

6. I have carefully gone through the facts of the case on records, grounds of appeal in the Appeal Memorandum and oral submissions made by the respondents at the time of personal hearing.

7. I agree to the contention put forth by the appellant in the appeal memorandum that there has been an error in sanctioning the refund

claims under Notification No. 41/2012-ST dated 29.06.2012. The issue to be decided by me is that whether the appellants are eligible for refund of Rs. 12082/- which was rejected vide the impugned orders.

8. Before dwelling on to the dispute, I would like to reproduce the relevant paras of Notification No. 41/2012-ST dated 29.6.2012 for ease of reference:

".....
(1)(c) the rebate under the procedure specified in paragraph 3 shall not be claimed wherever the difference between the amount of rebate under the procedure specified in paragraph 2 and paragraph 3 is less than twenty per cent of the rebate available under the procedure specified in paragraph 2;


....."

(Emphasis supplied)

9. Under the Notification No. 41/2012-ST dated 29.6.2012, two procedures have been specified for claiming the refund of service tax. The first procedure, as stipulated in Para 2 of the said Notification allows rebate of service tax paid on eligible input services as a percentage value of the declared Free on Board(FOB) value of the export goods on the basis of rate specified in the schedule, which is to be claimed from Customs authorities. The other procedure as stipulated in Para 3 is that the rebate may be claimed on the service tax actually paid on any specified service on the basis of duly certified documents, which is to be claimed from Excise authorities. However, the foremost condition as stipulated in Para 1(c) of the Notification is that the rebate cannot be claimed under the procedure as per Para 3, wherever the difference between the amount of rebate under the procedure of rebate as per Para 2 i.e. as a percentage on FOB value of goods and rebate on the basis of documents as per Para 3, is less than twenty per cent of the rebate available under the procedure as per Para 2. It is evident that if the difference between the amount of rebate calculated as per procedure laid down under Para 2 and at the rebate claimed as per the procedure laid down under Para 3, is less than 20% of the rebate available under Para 2, the rebate cannot be claimed under Para 3.

10. In view of the facts and discussions hereinabove, I find that the the adjudication authority has rightly denied the claim of refund for the shipping bill number 2936958 where the condition prescribed in the Notification No. 41/2012-ST dated 29.6.2012, has not been fulfilled. The appellant is eligible for refund of Rs. 9168/- where the condition prescribed in the Notification No. 41/2012-ST dated 29.6.2012 has been fulfilled.

11. In view of the foregoing, the impugned orders are set aside and the appeals are partially allowed.



12. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

12. The appeals filed by the appellants stand disposed of in above terms.

उमा शंकर

(उमा शंकर)

आयुक्त (अपील्स)

ATTESTED

स. दुता
(S. DUTTA) 08/04/18

SUPERINTENDENT (APPEAL-II),
CENTRAL EXCISE, AHMEDABAD.

To,
M/s. IMBB, 185/186, Chinubhai Tower,
Ashram Road, Ahmedabad 380009

Copy to:

1. The Chief Commissioner, Central Excise, Ahmedabad zone, Ahmedabad.
2. The Commissioner, Service Tax, Ahmedabad North.
3. The Deputy/Assistant Commissioner, Service Tax, Division-III, A'bad North.
4. The Assistant Commissioner, System-Ahmedabad North
5. Guard File.
6. P.A. File.